



रामाज्ञा स्कूल, नोएडा  
V / सिल्वर-ज़ोन / 2018-19  
हिंदी ओलंपियाड अभ्यास पत्रक

**संकल्पना**

दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनो।

1. मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कहलाता है ?  
(क) वर्ण (ख) शब्द  
(ग) भाषा (घ) वाक्य
2. व्याकरण हमें किस तरह की जानकारी देता है ?  
(क) वर्ण ज्ञान (ख) शब्द ज्ञान  
(ग) वाक्य ज्ञान (घ) दिए गए सभी विकल्प
3. छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते ?  
(क) शब्द (ख) वर्ण  
(ग) पद (घ) वर्णमाला
4. वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है ?  
(क) शब्द (ख) वाक्य  
(ग) अक्षर (घ) वर्णमाला
5. इनमें से कौन अलग है ?  
(क) आलू (ख) गोभी  
(ग) पालक (घ) सेब

**अनुप्रयोग**

6. इनमें से कौन - सा वस्त्र निम्न 3 से भिन्न है।  
(क) सूट - सलवार (ख) पैंट - शर्ट  
(ग) कोट - पैंट (घ) साड़ी
7. ' तुम्हारा नाम क्या है ? ' किस प्रकार का वाक्य है ?  
(क) प्रश्नवाचक (ख) अनिश्चयवाचक  
(ग) संदेहवाचक (घ) निश्चयवाचक
8. राम, कौशल्या, और ताड़का किसके पात्र हैं ?  
(क) महाभारत (ख) बाइबल  
(ग) कुरान (घ) रामायण

9. खिलौने वाला क्या बेचता है ?

- (क) फल (ख) सब्जी  
(ग) खिलौने (घ) कपड़ा

10. 'हामिद' दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है ?

- (क) मिठाई (ख) चिमटा  
(ग) कपड़ा (घ) कुल्हाड़ी

### मूल्यपरक

11. परीक्षा में बैठने वाले को क्या कहते हैं ?

- (क) विद्यार्थी (ख) परीक्षार्थी  
(ग) अभ्यर्थी (घ) सेवार्थी

12. 'जल' का पर्यायवाची क्या होगा ?

- (क) नीरज (ख) बादल  
(ग) पंकज (घ) पानी

13. इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छाँटो -

- (क) घोड़ा (ख) मोर  
(ग) शेर (घ) बिल्ली

14. 'बेबस' शब्द 'बे' और 'बस' को जोड़कर बना है इसी तरह 'बेजोड़' शब्द किन शब्दों के जोड़ से बना है?

- (क) बेज + इ (ख) बे + जोड़  
(ग) बे + जाड़ (घ) बि + जोड़

15. 'चोर - चोर मौसेरे भाई' मुहावरे का क्या अर्थ होता है ?

- (क) एक जैसे विचारों वाले (ख) साथ - साथ काम करने वाले  
(ग) मौसी के बच्चे जो भाई हों (घ) दोस्त

### उच्चस्तरीय

प्रश्न - 1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही ( ✓ ) का चिह्न लगाइए-

ईश्वरचंद्र विद्यासागर को एक व्यक्ति मिला। वह रो रहा था। विद्यासागर जी ने पूछा, "क्यों रो रहे हो?" "मेरे पूर्वजों का घर आज नीलाम हो जाएगा। मुझ पर २३०० रुपये की अदालती देनदारी है।" उस व्यक्ति ने बताया।

विद्यासागर जी ने उसका नाम-पता पूछा और कचहरी जाकर चुपचाप रुपये जमा करवा दिए। जब नियत समय के बाद भी अदालती कार्यवाही नहीं हुई तो वह व्यक्ति कचहरी जा पहुंचा। पाता चला कि किसी ने रुपये जमा करा दिए हैं। उसका माथा ठनका, 'हो न हो, ये

रूपये उस व्यक्ति ने जमा करवाए होंगे ,जो उसे रास्ते में मिले थे ।' उसने विद्यासागर जी को ढूँढ लिया ।

विद्यासागर जी ने कहा, "यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम पर उपकार किया है तो इतना-सा उपकार मेरे ऊपर करो कि इस बात की चर्चा किसी से मत करना ।"

1. व्यक्ति क्या कर रहा था ?\

(क) वह हँस रहा था ।

(ख) वह गुस्से में था ।

(ग) वह रो रहा था ।

(घ) वह सबसे नाराज़ था ।

2. विद्यासागर जी ने क्या किया ?

(क) रूपए जमा करवा दिए ।

(ख) व्यक्ति को डाँटकर भगा दिया ।

(ग) व्यक्ति से दोस्ती कर ली ।

(घ) व्यक्ति को पकड़वा दिया ।

3. व्यक्ति कचहरी क्यों जा पहुँचा?

(क) मुकदमा लड़ना चाहता था ।

(ख) उसे न्याय की आवश्यकता थी ।

(ग) वह दुखी था ।

(घ) अदालती कार्यवाही न होने पर ।

4. व्यक्ति का माथा क्यों ठनका ?

(क) अव्यवस्था देख कर

(ख) अपने लिए ज़मानत हुई देखकर

(ग) जेल का माहौल देखकर

(घ) जेल का खाना देखकर

5. विद्यासागर जी ने उस व्यक्ति से क्या कहा ?

(क) ज़मानत होने की चर्चा किसी से मत करना

(ख) बात को भूल जाना

(ग) अपना काम समय पर करना

(घ) अपनी बड़ाई न करना